



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2009/अग्रहायण 4, 1931

No. 676]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2009/AGRAHAYANA 4, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 844(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा 2 के खंड (क) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल योद्धक (सामान्य ड्यूटी) सेवा में समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योद्धक (सामान्य ड्यूटी) सेवा समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरंभिक गठन.—उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट समूह 'ग' योद्धक पदों के पदधारी नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व पद पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(2) नियमित आधार पर इन नियमों के प्रारंभ से तत्काल पूर्व संबंधित श्रेणी में उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पदधारी की नियमित और निरंतर सेवा की परिचीक्षा अवधि पुष्टिकरण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में किया जाएगा।

5. प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम.—पोषक पक्ति में व्यक्तियों को उनकी अपनी ज्येष्ठता के क्रम में अगली उच्चतर पक्ति में प्रोन्नति के लिए सेवा पात्रता अवधि पूरा करने से पूर्व अर्हक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और बल का ऐसा प्रत्येक सदस्य किसी प्रोन्नति से पूर्व इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने की उपेक्षा की जाएगी।

6. ज्येष्ठता कांडर के विभिन्न प्रवर्गों या श्रेणियों के पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार परिभाषित किए जाएंगे।

7. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

8. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी -1 में हैं, इन नियमों को उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए श्रेणी-1 से निम्नवत् परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :—

(i) कोड अक्षर शेष (एस.एच.ए.पी.ई), जो निम्नलिखित कृत्य को व्यपदिष्ट करते हैं, द्वारा उपदर्शित विद्यमान घटकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण:-

- एस - मनोवैज्ञानिक
- एच - श्रवण शक्ति
- ए - उपांग (अपैन्डेजेस)
- पी - शारीरिक क्षमता
- ई - दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1एपी1ई1 लिखने के बजाय शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा, इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

(क) कही भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) कही भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों को श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(ग) "एस" घटक को छोड़कर नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और लंबे कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

9. अन्तर्देशीय अपात्रता : कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्ति नहीं किए जाएंगे।

10. अधिवर्षिता : (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

परंतु यह है कि वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

11. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

13. सेवा का दायित्व : इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कही सेवा करने का दायी होगा।

14. विवेचना : इन नियमों के विवेचना संबंधी यदि इन नियमों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/ वेतनमान	चयन-सह-ज्योछता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. हैड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)	5624* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसूचिणीय) योथक	वेतन बैंड-1 5,200-20,200+ श्रेणी वेतन 2400 रु.	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पदवृत्तियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता।	लागू होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/आमेलन।	प्रोन्नति : ऐसे नायक (सामान्य ड्यूटी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है या नायक, या लांसनायक या कांस्टेबल की श्रेणी में 8 वर्ष संयुक्त सेवा की है और निम्नलिखित अर्हताएं रखता है : (i) मैट्रिकुलेशन या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से समतुल्य या विभागीय सैकेन्ड क्लास शैक्षिक परीक्षा। (ii) समय-समय पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक द्वारा विहित किए गए प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम की अर्हता रखता हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस के ऐसे अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नत समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष 2. सेकेंड इन कमांडेंट/उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य	लागू नहीं होता।

9	10	11	12	13	14
			<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन</u></p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/ वेतनमान	चयन-सह-उपेक्षा या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
2. नायक (सामान्य ड्यूटी)	1468* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग अराजपत्रित (अनुसूचिकीय) योद्धक	वेतन बैंड-1 5,200-20,200+ श्रेणी वेतन 2000 रु.	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100 % प्रोन्नति द्वारा।	<p>प्रोन्नति : ऐसे लॉसनायक (सामान्य ड्यूटी) में से जिन्होंने उस रैंक में दो वर्ष से कम नियमित सेवा नहीं की है और जिन्होंने 6 वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित अर्हताएं रखता है:</p> <p>(i) मैट्रिकुलेशन या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से समतुल्य या विभागीय सैकेन्ड-क्लास शैक्षिक परीक्षा।</p> <p>(ii) समय-समय पर संशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक द्वारा विहित किए गए प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम की अर्हता रखता हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नत समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कमांडेंट, संशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष 2. सेकेंड इन कमांडेंट/उप कमांडेंट, संशस्त्र सीमा बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, संशस्त्र सीमा बल - सदस्य 	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
3. लांस नायक (सामान्य ड्यूटी)	1817* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसूचित)	वेतन बैंड-1 5,200-20,200+ श्रेणी वेतन 2000 रु.	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	9	लागू नहीं होता।
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	10	लागू नहीं होता।
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	11	100 % प्रोन्नति द्वारा।
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	12	प्रोन्नति : ऐसे कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और निम्नलिखित अर्हताएं रखता है: (i) मैट्रिकुलेशन या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से समतुल्य या विभागीय तृतीय क्लास शैक्षिक परीक्षा। (ii) समय-समय पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक द्वारा विहित किए गए प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम की अर्हता रखता हो।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	13	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नत समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष 2. सेकेंड इन कमांडेंट/उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	14	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सोये भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सोये भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
4. कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)	29379* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसूचित) योथक	वेतन बैंड-1 5,200-20,200 + श्रेणी वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पुरुष और महिला अभ्यर्थी की आयु 18-23 वर्ष के बीच हो। (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च आयु-सीमा पाँच वर्ष शिथिलनीय होगी और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में तीन वर्ष होगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए भी शिथिल किया जा सकता है।)	(i) आवश्यक : शैक्षिक अर्हताएं किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य . (ii) शारीरिक और चिकित्सा स्तर (क) ऊंचाई : पुरुष : 170 सेंटीमीटर महिला : 157 सेंटीमीटर (ख) छाती : पुरुषों के लिए बिना फुलाए : 80 सेंटीमीटर फुलाने पर : 85 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए : छाती की न्यूनतम अपेक्षा नहीं है। (ग) वजन : पुरुषों और महिलाओं के लिए ऊंचाई और आयु के चिकित्सीय मानक के अनुरूप अभ्यर्थियों की ऊंचाई और छाती का शिथिलीकरण का अनुज्ञेय निम्नलिखित रूप में होगी। ऊंचाई : गढ़वाल, कुमायू, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह तथा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों 165 सेंटीमीटर पुरुषों की और 155 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए होगी।

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>छाती : गढ़वाल, कुमायु, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्ग में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम छाती और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र के संबंधित अभ्यर्थियों की 78 सेंटीमीटर (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाने पर) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम छाती 76 सेंटीमीटर (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाने पर) होगी।</p> <p>चिकित्सीय मान</p> <p>(क) दृष्टि : बिना चश्मा लगाए दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।</p> <p>(ख) अभ्यर्थियों को अन्तर्जानु, सफाट पैर, सफात शिरा या तिर्यक आंखों वाली नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के पालन में व्यवधान न हो।</p> <p>टिप्पण : सीधी नियुक्ति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर आधारिक भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्हत करना होगा। आधारिक भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्हत करने के लिए दो से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे जिसके न हो सकने पर उनकी सेवा समाप्ति का दायी है।</p>

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	9	लागू नहीं होता।					
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	10	दो वर्ष।					
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	11	सीधी भर्ती, जिसके अन्तर्गत दस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक, रिमुस्ट्रेशन या आमेलन से पांच प्रतिशत और खिलाड़ियों से पांच प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर पुनःनियोजन द्वारा।	12	रिमुस्ट्रेशन या आमेलन: समूह 'घ' अनुचरों और कांस्टेबलों (आर्डरलाइज), कांस्टेबल (हेल्पर), समूह 'ग' पदों से जो न्यूनतम 3 वर्ष के सेवा पूरी की हो सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 35 वर्ष से नीचे तथा अन्तरण की तारीख से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए शिथिलीकरण तथा स्तंभ सं. 8 में यथा विहित की गई शैक्षिक अहर्ताएं और शारीरिक मानकों को पूरा करता है। प्रतिनियुक्ति: नियमित आधार पर सदृश पद धारित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों, पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	13	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
					समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति चयन बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगी 1. कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - अध्यक्ष 2. सेकेंड इन कमांडेंट/उप कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य 4. मेडिकल अफसर, सशस्त्र सीमा बल - सदस्य (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्रत्येक एक सदस्य सहयोगित सदस्य के रूप में प्रत्येक भर्ती बोर्ड में होगी।)		लागू नहीं होता।

9	10	11	12	13	14
			<p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कामों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विद्वत्ता अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		

[फा. सं. 4/3/एस. एस. बी./सी. एस. सी./08/एस. एफ. एस.]

बरुण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2009

G.S.R. 844(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (c) of sub-section 2 of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Sashastra Seema Bal Combatised General Duty Service under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and Commencement.** - (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Combatised (General Duty) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and scale of pay.** - The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.
4. **Initial constitution.** - (1) The incumbents of the Group 'C' Combatised posts specified in the said Schedule, who were appointed to the posts before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under the provisions of these rules.

(2) The regular and continuous service of incumbents referred to in sub rule (1) in the respective grades immediately before the commencement of these rules, shall be taken into account for the purposes of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.
5. **Pre-promotional courses.** - The persons in the feeder rank shall be detailed to undergo qualifying courses before completing service eligibility period for promotion to the next higher rank in order of their seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass pre-promotional courses referred to in the Schedule annexed herein:

6. **Seniority.** - The inter-se-seniority of officers appointed to the posts in different categories or grades of the cadre shall be defined in accordance with the general orders issued on the subject by the Central Government from time to time.

7. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Medical Fitness.** - Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

Explanation.- For the purpose of this rule, "SHAPE-I" means Medical category defined as under:-

- (i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:-

S	-	Psychological
H	-	Hearing
A	-	Appendages
P	-	Physical Capacity
E	-	Eyesight.

- (ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing SHH1A1P1E1. General evaluation of these numerals is as under:-

- (a) Fit for all duties any where.

- (b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing/vision of both ears or eyes.
 - (c) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters), extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
 - (d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.
 - (e) Permanently unfit for duties.
9. **Ineligibility of aliens.** - No person who is not a citizen of India, shall except with the prior permission of the Central Government in writing, shall be appointed under these rules.
10. **Superannuation.** - A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty-seven years:
- Provided that a person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty seven years.
11. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
12. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
13. **Liability of service.** - Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.
14. **Interpretation.** - If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) rules 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Head Constable (General Duty).	5624* (2009) *Subject to variation dependent upon work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial) Combatised.	PB-I Rs.5200-20,200 plus Rs.2400 (Grade Pay).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a departmental promotional committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation/absorption. For ex-servicemen: Deputation / re-employment.	<p>Promotion: From amongst Naik (General Duty) with two years regular service in the grade or having a combined service of eight years in the grade of Naik or Lance Naik or Constable and possessing the following qualifications: -</p> <p>(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or departmental 2nd class educational examination.</p> <p>ii) Must have qualified the pre-promotional course (s) prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.</p> <p>By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Police (i) holding analogous posts on regular basis.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotional Committee consisting of: -</p> <p>1. Commandant, Sashastra Seema Bal : Chairman</p> <p>2. Second-in-command/Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal : Member</p> <p>3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal : Member</p>	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<p>The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty two years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>By re-employment for ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel who have held the same or equivalent rank in Armed Forces and are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications as prescribed for promotion above shall also be considered and such persons if selected would be given deputation terms up-to the date on which they are due to release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Naik (General Duty).	1468* (2009) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non- Gazetted. (Non- Ministerial) Combatized.	PB-I Rs.5200- 20,200 plus Rs.2000 (Grade Pay).	Non -selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	100 percent by promotion.	<p>Promotion: From amongst Lance Naik (General Duty) with not less than two years regular service in the rank and rendered six years regular service in Sashastra Seema Bal and possessing the following qualifications:-</p> <p>(i) Matriculation or equivalent from a recognised board or institute or departmental 3rd class educational examination.</p> <p>(ii) Must have qualified the pre-promotional courses prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :-</p> <p>1. Commandant, Sashastra Seema Bal : Chairman</p> <p>2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal : Member</p> <p>3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal : Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Lance Naik (General Duty).	1817* (2009) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C'; Non-Gazetted, (Non-Ministerial) Combatized.	PB-1 Rs.5200-20,200 plus Rs.2000 (Grade Pay).	Non - selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	100 percent by promotion.	<p>Promotion: From amongst Constables (General Duty) with four years regular service in the grade and possessing the following qualifications :-</p> <p>(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or institute or departmental 3rd class educational examination.</p> <p>(ii) Must have qualified the pre-promotional course(s) as prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :-</p> <p>1. Commandant, Sashastra Seema Bal : Chairman</p> <p>2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal : Member</p> <p>3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal : Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Constable (General Duty).	29379* (2009) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group- 'C' Non- Gazetted (Non- Ministerial) Combatant.	PB-I Rs.5200- 20,200 plus Rs.2000 (Grade Pay).	Not applicable.	Not applicable.	Male and Female candidates of age between 18 to 23 years. (Upper age limit shall be relaxable by five years for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and three years for Other Backward classes. Also relaxable for Government and Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.	<p>(i) Essential : Educational qualification Matriculation or equivalent from a recognised board or institute.</p> <p>(ii) Physical and Medical Standard (a) Height : For males : 170 cms For Females: 157 cms (b) Chest : For males : Unexpended : 80 cms Expended : Minimum expansion 5 cms For female : No minimum requirement of chest.</p> <p>(c) Weight: (For males and Females) Proportionate to height and age as per Medical standards.</p> <p>The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows:-</p> <p>Height: Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas, and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be 1st August every year for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep)</p>	<p>Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir will be 165 cms for male and 155 cms for females. The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes will be 162.5 cms for males and 150 for females.</p> <p>Chest: The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir will be 78 cms (minimum 5 cms expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to Scheduled Tribes will be 76 cms (minimum 5 cms expansion).</p> <p>Medical Standards: a) Eye Sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>Note: Candidates on direct appointment will qualify the Basic Recruit Training Course within a period of two years from the date of appointment. Not more than two chances will be given to qualifying Basic Recruit Training Course failing which services are liable to be terminated.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment, which includes ten percent from ex-servicemen, five percent from remusteration or absorption and five percent from sport persons failing which by deputation failing which by re-employment.	<p>Remusteration /absorption</p> <p>From Group 'D' Followers and Constable (Orderlies), Constable (Helper)--Group 'C' posts, who have completed minimum three years service and are below thirty five years of age in case of general candidates and relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Government on the date of transfer and fulfilling the educational qualifications and physical standards as prescribed in column no. 8.</p> <p>By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Police Organizations holding analogous posts on regular basis.</p> <p>The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Group 'C' Departmental promotion/Selection Board consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commandant. Sasashtra Seema Bal : Chairman 2. Second-in Command or Deputy Commandant. Sasashtra Seema Bal : Member 3. Assistant Commandant. Sasashtra Seema Bal : Member 4. Medical Officer. Sasashtra Seema Bal : Member <p>(One Member each belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Minority Community will be detailed with each Recruitment Board as co-opted Member)</p>	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding fifty-two years, as on the closing date of receipt of application.</p> <p>By re-employment for ex-servicemen:</p> <p>The Armed Forces personnel who have held the same or equivalent rank in Armed Forces and are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications as prescribed for promotion above shall also be considered and such persons if selected would be given deputation terms up-to the date on which they are due to release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.</p>		

[F. No. 4/3/SSB/CSC/08/SFS]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Pers.)